

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2019-फाल्गुन 24, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 की संख्या 02/43/07/23109/19 के तहत स्थापित)

अधिसूचना

1. हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 की संख्या-23109/19, के तहत स्थापित और आई. एस. ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है.
2. हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत की गुणवत्ता परिषद वाणिज्य मंत्रालय संख्या-सी.ओ.आर.पी./एन.जी.ओ./6257 के द्वारा सदस्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था है.
3. हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 के द्वारा रजिस्टर्ड एक शैक्षिक संस्था होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिये स्थापित है.
4. हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समकक्ष हिन्दी साहित्य विषय के साथ-साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य कला से प्रथमा (हाईस्कूल) मध्यमा (इण्टरमीडियेट) की परीक्षा सम्पन्न करवाता है और अंक पत्र प्रदान करता है.
5. हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा जारी किये गये अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र अग्रिम उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु या सरकारी नौकरियों के लिये राज्य सरकार/भारत सरकार के सभी संस्थानों में स्वीकार्य किये जावेंगे.

(1012-बी.)

ए. खरे,
सचिव.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हम हितेश शर्मा व नीलू शर्मा ने एक दत्तक पुत्र रचित व्यास पुत्र राजेश व्यास व एकता व्यास से गोद लिया है, इस गोदनामों का रजिस्ट्रेशन हमने पंजीयन कार्यालय इन्दौर में करवाया है व गोदनामों के बाद हमने अपने पुत्र का नाम

रचित शर्मा पुत्र हितेश शर्मा व नीलू शर्मा रखा है. ज्यादातर दस्तावेजों में हमने उसका नाम सुधार करवा लिया है. किन्तु उसकी 10वीं की अंकसूची में अभी भी उसका पुराना नाम ही लिखा हुआ है. अतः 10वीं की अंकसूची सहित उसके सभी दस्तावेजों में उसका नाम रचित शर्मा पुत्र हितेश शर्मा व नीलू शर्मा ही लिखा व पढ़ा जावे.

हितेश शर्मा व नीलू शर्मा,
ए-59, आनंद बिहार कॉलोनी,
स्कीम नं. 103, इन्दौर (म.प्र.).

(1015-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

वर्तमान में मेरा नाम यश यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव, आयु 39 वर्ष, निवासी-64-ए, अम्बेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.) है, जिसे परिवर्तित कर अब मुझे यश भारतीय पुत्र श्री किशन लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(**यश यादव**)
आत्मज-श्री किशन लाल यादव.

नया नाम :
(**यश भारतीय**)
आत्मज-श्री किशन लाल यादव,
निवासी-64-ए, अम्बेडकर नगर,
भोपाल (म.प्र.) 462003.

(1013-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मौसमी एक्का अंकित है, विवाहोपरांत मुझे मौसमी अनिल तिकी पत्नी श्री अनिल तिकी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मौसमी अनिल तिकी पढ़ा जाये एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(**मौसमी एक्का**)

नया नाम :
(**मौसमी अनिल तिकी**)
95, मनोहर इन्क्लेव,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(1014-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लीला बाई व जन्म दिनांक 01-07-1956 है. जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम लीला देवी लिखा हुआ है. जो कि गलत है, अतः मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित सभी दस्तावेजों में मेरा नाम व जन्म दिनांक सही लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(**लीला देवी**)
पति-बसन्त.

नया नाम :
(**लीला बाई**)
पति-बसन्त गोहर,
52/2, हरिजन कॉलोनी, गाड़ी अड्डा
नवलखा मेन रोड, इन्दौर म.प्र. 452001.

(1016-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में हमारा नाम बसन्त पिता नाथू लिखा हुआ है, किन्तु हमारे अन्य दस्तावेजों में हमारा नाम उपनाम सहित बसन्त गोहर पिता नाथू लाल गोहर लिखा हुआ है, अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित सभी दस्तावेजों में भी हमारा नाम उपनाम सहित बसन्त गोहर पिता नाथू लाल गोहर ही लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(**बसन्त**)
पिता-नाथू

नया नाम :
(**बसन्त गोहर**)
पिता-नाथू लाल गोहर,
52/2, हरिजन कॉलोनी, गाड़ी अड्डा
नवलखा मेन रोड, इन्दौर म.प्र. 452001.

(1017-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम अक्षिता भर्वेल है. किन्तु उसकी कक्षा 10वीं की अंकसूची में उसका नाम अक्षत भर्वेल लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः मेरी पुत्री अक्षिता भर्वेल की अंकसूची में उसका सही नाम अक्षिता भर्वेल ही लिखा व पढ़ा जावे.

(1018-बी.)

कमलेश भर्वेल,
(पिता)

19-सी, कुन्दन नगर,
बड़वानी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पियूष मेहरोत्रा है जो मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, साथ ही मेरा घर का बोलता हुआ नाम सुरेश भी है, जो केवल घरेलू बोलचाल में ही उपयोग होता है, किन्तु किसी भूल के कारण घर का नाम सुरेश मेरे कुछ दस्तावेजों में भी लिखा गया है, अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम सुरेश लिखा हुआ है. उन सभी जगह मेरा सही नाम पियूष मेहरोत्रा लिखा जावे.

(1019-बी.)

पुराना नाम :
(सुरेश)

पिता-विनोद कुमार मेहरोत्रा.

नया नाम :

(पियूष मेहरोत्रा)

पिता-विनोद कुमार मेहरोत्रा,
182, टेलीफोन नगर, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि शेखर कश्यप आत्मज श्री ओम प्रकाश कश्यप, उम्र लगभग-26 वर्ष, निवासी-1063, बनारसीदार वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) अपना नाम शेखर कश्यप से बदलकर शेखर राजपूत करता हूँ तथा मुझे भविष्य में शेखर कश्यप के स्थान पर शेखर राजपूत के रूप में जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में शेखर कश्यप के स्थान पर शेखर राजपूत के नाम से जाना जावे.

(1020-बी.)

पुराना नाम :
(शेखर कश्यप)

नया नाम :
(शेखर राजपूत)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सूचनाकर्ता वीरेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह रघुवंशी, निवासी जमरा, तहसील गुना का नाम अभी तक कुछ दस्तावेजों में हरिसिंह भी चला आ रहा है. मायने उक्त दोनों ही नामों से मुझे पहचाना जाता है और इसी कारण स्थानीय केन्द्रीय विद्यालय गुना में कक्षा 5 में अध्ययनरत पुत्र विशेष रघुवंशी के कागजों में भी मेरा नाम हरिसिंह लिखा हुआ है, जबकि मेरा सही नाम वीरेन्द्र सिंह ही है, यही नाम अन्य कागजों में भी कराया जा रहा है. अतः आज से मुझे वीरेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह रघुवंशी के रूप में ही जाना-पहचाना जाएगा.

(1021-बी.)

पुराना नाम :
(हरिसिंह)

पुत्र-अमोल सिंह रघुवंशी,

नया नाम :

(वीरेन्द्र सिंह)

पुत्र-अमोल सिंह रघुवंशी,
निवासी-जमरा, तहसील व जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम देव शर्मा अंकित हो गया है. उसका जन्म दिनांक 04-01-2019 है. मैं अपने पुत्र का नाम बदलकर युवराज शर्मा रखना चाहती हूँ. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को युवराज शर्मा के नाम से जाना, पहचाना जावे.

(1022-बी.)

नेहा शर्मा,
जोधार्सिंह का बाड़ा, नदी पार टाल,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दुर्गेश पवार DURGESH PAWAR आत्मज धनुश पवार DHANUSH PAWAR, निवासी-300 एन-3 ए-आर. सी-सेक्टर पिपलानी, भेल भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गेश DURGESH पिता धनुष DHANUSH दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गेश भादे DURGESH BHADE आत्मज धनुश भादे DHANUSH BHADE एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गेश पवार DURGESH PAWAR आत्मज धनुश पवार DHANUSH PAWAR दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गेश DURGESH एवं दुर्गेश भादे DURGESH BHADE आत्मज धनुश DHANUSH एवं धनुश भादे DHANUSH BHADE दर्ज है. उसके स्थान पर दुर्गेश पवार DURGESH PAWAR आत्मज धनुश पवार DHANUSH PAWAR पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(दुर्गेश)

DURGESH.

(1023-बी.)

नया नाम :

(दुर्गेश पवार)

DURGESH PAWAR.

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश ठाकरे MUKESH THAKRE आत्मज वामनराव ठाकरे VAMANRAO THAKRE, निवासी-79, डी-3, डी-सेक्टर, पिपलानी, भेल भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश MUKESH पिता वामनराव VAMANRAO दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश ठाकरे MUKESH THAKRE आत्मज वामनराव ठाकरे VAMANRAO THAKRE दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश MUKESH आत्मज वामनराव VAMANRAO दर्ज है. उसके स्थान पर मुकेश ठाकरे MUKESH THAKRE आत्मज श्री वामनराव ठाकरे VAMANRAO THAKRE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(मुकेश)

MUKESH.

(1024-बी.)

नया नाम :

(मुकेश ठाकरे)

MUKESH THAKRE.

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश पवार RAJESH PAWAR आत्मज गणपति पवार GANPATI PAWAR, निवासी-म. नं. 7, साईं लक्ष्मी होम्स, रोहतास नगर, कृष्णा मंदिर के पास, खजूरी कलां, भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश RAJESH पिता गणपति GANPATI PAWAR, दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश पवार RAJESH PAWAR आत्मज गणपति पवार GANPATI PAWAR दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश RAJESH आत्मज गणपति पवार GANPATI PAWAR दर्ज है. उसके स्थान पर राजेश पवार RAJESH PAWAR आत्मज गणपति पवार GANPATI PAWAR पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(राजेश)

RAJESH.

(1025-बी.)

नया नाम :

(राजेश पवार)

RAJESH PAWAR.

नाम परिवर्तन

मैं, विजय कुमार दाबड़े VIJAY KUMAR DABDE आत्मज पंजाबराव दाबड़े PANJABRAO DABDE, निवासी-मकान नं. 203, शिवलोक ग्रीन्स फेस-6, खजूरी कलां, भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार VIJAY KUMAR पिता पंजाबराव दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार दाबड़े VIJAY KUMAR DABDE आत्मज पंजाबराव दाबड़े PANJABRAO DABDE दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम विजय कुमार VIJAY KUMAR आत्मज पंजाबराव PUNJABRAO दर्ज है. उसके स्थान पर विजय कुमार दाबड़े VIJAY KUMAR DABDE आत्मज पंजाबराव दाबड़े PANJABRAO DABDE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(विजय कुमार)

VIJAY KUMAR

(1026-बी.)

नया नाम :

(विजय कुमार दाबड़े)

VIJAY KUMAR DABDE.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत चिल्हाटे PRASHANT CHILHATE आत्मज गोविन्द राव चिल्हाटे GOVIND RAO CHILHATE, निवासी-सी. एम. 204, अयोध्या एक्सटेंशन, अयोध्या बायपास भोपाल का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रशांत PRASHANT आत्मज गोविन्द राव GOVIND RAO दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रशांत चिल्हाटे PRASHANT CHILHATE आत्मज गोविन्द राव चिल्हाटे GOVIND RAO CHILHATE दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम प्रशांत PRASHANT आत्मज गोविन्दराव GOVIND RAO दर्ज है. उसके स्थान पर प्रशांत चिल्हाटे PRASHANT CHILHATE आत्मज गोविन्द राव चिल्हाटे GOVIND RAO CHILHATE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(प्रशांत)

PRASHANT

(1027-बी.)

नया नाम :

(प्रशांत चिल्हाटे)

PRASHANT CHILHATE.**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुमारी प्राची बिरले पिता श्री गोपाल बिरले था. मेरा विवाह दिनांक 23-12-2017 को हुआ होकर विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती प्राची पाटिल पति श्री रोहित पाटिल हो गया है तथा आगे से श्रीमती प्राची पाटिल पति श्री रोहित पाटिल के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी सो विदित हो.

पुराना नाम :

(प्राची बिरले)

PRACHI BIRLE.

पिता-श्री गोपाल बिरले.

(1028-बी.)

नया नाम :

(प्राची पाटिल)

PRACHI PATIL,पति-श्री रोहित पाटिल,
निवासी-185-डी, विदुर नगर अहिरखेड़ी,
इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बचपन का घरेलू बोलता नाम रूपा शाह पिता इन्द्रवदन शाह है, जो कि मेरे बैंक खाते में दर्ज है, जबकि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों जैसे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्कूल मार्कशीट इत्यादि में मेरा नाम प्रीति शाह है, मेरी शादी होने के बाद मेरा नाम प्रीति शाह पति हेतल कुमार हो गया है. मैं, रूपा शाह पिता इन्द्रवदन शाह माता धर्मिष्ठा बेन शाह व पति हेतल कुमार शाह एक ही महिला हूँ अब मुझे प्रीति शाह पति हेतल कुमार के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रूपा शाह)

पिता-इन्द्रवदन शाह
माता-धर्मिष्ठा बेन शाह.

(1029-बी.)

नया नाम :

(प्रीति शाह)

पति-हेतल कुमार शाह,
निवासी-25/14, यशवंत निवास रोड,
इन्संड बैंक के पास, इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीषा पाठकर पति मनोज पाठकर, पता मकान नं. 33 वार्ड नं. 12 मझौली, तहसील मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.) 483336 की निवासी हूँ मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में संध्या पाठकर पिता किशन लाल पाठकर दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं बैंक खाता में मेरा नाम मनीषा पाठकर दर्ज हैं. अतः सूचित किया जाता है कि मनीषा पाठकर एवं संध्या पाठकर एक ही महिला के नाम हैं. अतः दोनों नाम एक ही समझे जावें. मेरा वास्तविक नाम मनीषा पाठकर जाना, पहचाना पढ़ा लिखा जावे.

पुराना नाम :

(संध्या पाठकर)

(1030-बी.)

नया नाम :

(मनीषा पाठकर)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जीवन शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा था, मैंने दिनांक 27 फरवरी, 2019

का पब्लिक नोटरी श्री महेंद्र कुमार जैन के समक्ष किये गए शपथ-पत्र के द्वारा मेरा नाम जीवन शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा से परिवर्तन कर सोनू शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा कर लिया है। जीवन शर्मा और सोनू शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब मुझे भविष्य में सभी संदर्भों और उद्देश्यों के लिए सोनू शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(जीवन शर्मा)

पिता-शंकरलाल शर्मा.

(1031-बी.)

नया नाम :

(सोनू शर्मा)

पिता-शंकरलाल शर्मा,
पता-मकान नं. 85, ग्राम निनोरा,
तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)456006.

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि शरद कश्यप आत्मज श्री ओम प्रकाश कश्यप, उम्र लगभग-31 वर्ष, निवासी 1063 बनारसीदास वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) अपना नाम शरद कश्यप से बदलकर शरद राजपूत करता हूँ तथा मुझे भविष्य में शरद कश्यप के स्थान पर शरद राजपूत के रूप में जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में शरद कश्यप के स्थान पर शरद राजपूत के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(शरद कश्यप)

(1032-बी.)

नया नाम :

(शरद राजपूत)

नाम परिवर्तन

मैं, किरन देवी बाथम सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ की मेरी बोलता नाम किरन देवी मांझी था और वर्तमान में किरन देवी बाथम के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और मैं किरन देवी बाथम के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ भूलवश मेरी बीमा पॉलिसियों में एवं अन्य प्रपत्र में मेरा बोलता नाम किरन देवी मांझी लिखा गया है जो कि गलत है जबकि किरन देवी मांझी एवं किरन देवी बाथम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम किरन देवी मांझी के स्थान पर किरन देवी बाथम लिखा जाये एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(किरन देवी मांझी)

(1033-बी.)

नया नाम :

(किरन देवी बाथम)

पता-रैती फाटक लोहा मण्डी,
ग्वालियर-3.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, के. आर. सोनी, एडवोकेट, निवासी डी-71, विनय नगर, सेक्टर नं. 04 ग्वालियर हूँ परन्तु मेरा राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर में नाम कल्लूराम स्वर्णकार अंकित है। दोनों ही नाम मेरे ही हैं, मैं अपना कल्लूराम स्वर्णकार नाम समाप्त कर मात्र के. आर. सोनी एडवोकेट कर रहा हूँ एवं मैं, के. आर. सोनी के नाम से ही भविष्य में जाना जाऊंगा एवं मेरी आज भी पहचान के. आर. सोनी, एडवोकेट के नाम से ही है।

पुराना नाम :

(कल्लूराम स्वर्णकार)

(1038-बी.)

नया नाम :

(के. आर. सोनी)

पता-डी-71, विनय नगर, सेक्टर नं. 04 ग्वालियर.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम वैशाली गर्ग पुत्री पुरूषोत्तम अग्रवाल, निवासी अलंकार होटल के पास, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर था। जो कि मेरे आई. डी. बी. आई., शाखा नया बाजार, ग्वालियर के बैंक एकाउण्ट में दर्ज है, परन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वैशाली अग्रवाल पुत्री पुरूषोत्तम अग्रवाल रख लिया है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मार्कशीट में दर्ज है। अतः इस सूचना प्रकाशन के बाद से जहाँ भी मेरा नाम वैशाली गर्ग लेख है। उसे वैशाली अग्रवाल पढ़ा, लिखा व समझा जावे।

पुराना नाम :

(वैशाली गर्ग)

पुत्री-पुरूषोत्तम अग्रवाल.

(1039-बी.)

नया नाम :

(वैशाली अग्रवाल)

पुत्री-पुरूषोत्तम अग्रवाल.

नाम परिवर्तन

सूचित कर रही हूँ मुझे श्रीमती प्रिया सक्सेना पति श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना के नाम से जाना जाता व पहचाना जाता है. जो कि सही है. परन्तु मेरी कक्षा 10वीं 12वीं व बी. एस. सी. बायो की अंकसूची में एवं जाति प्रमाण-पत्र में मेरा नाम कु. प्रेमलता भटेवरा पिता श्री मांगीलाल भटेवरा लिखा है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती प्रिया सक्सेना पति श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रेमलता भटेवरा)

(1040-बी.)

नया नाम :

(प्रिया सक्सेना)

निवासी-2625, ई सुदामा नगर,
इन्दौर (एम. पी.) पिन-452009.**CHANGE OF NAME**

This is to inform to the general public that previously my name was Devendra Kumar Jain S/o Shri Jinendra Kumar Manawat but now after change my name is Devendra Kumar Manawat S/o Shri Jinendra Kumar Manawat so in future, I will be known only as Devendra Kumar Manawat S/o Shri Jitendra Kumar Manawat.

Old Name:

(DEVENDRA KUMAR JAIN)

(1041-B.)

New Name :

(DEVENDRA KUMAR MANAWAT)

8, Green Park Colony,
Behind High Court, Indore.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 8वीं व 11वीं बोर्ड की मार्कशीट में मेरा नाम पप्पू सिंह नारंग पिता श्री महेन्द्र सिंह नारंग (जो कि मेरा निकनेम था) लिखा हुआ है. जो कि मेरे बचपन का नाम था, जबकि गुरुग्रंथ साहिब के नामकरण अनुसार मैंने अपना नाम बदलकर हरभजन सिंह नारंग रख लिया है. जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य सभी आई. डी. आदि सभी दस्तावेजों में दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हरभजन सिंह नारंग पिता श्री महेन्द्र सिंह नारंग के नाम से जाना, पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(पप्पू सिंह नारंग)

पुत्र-श्री महेन्द्र सिंह नारंग.

(1042-बी.)

नया नाम :

(हरभजन सिंह नारंग)

पुत्र-श्री महेन्द्र सिंह नारंग,
3बी. आर्दश नगर माणिक बाग मेन रोड,
नियर पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मैं, महेश माहेश्वरी (MAHESH MAHESHWARI) आत्मज पूरनलाल, आयु 45 वर्ष, पेशा-चिकित्सक, निवासी शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) हाल मुकाम-एफ-48, द्वारकाधाम कैम्पस, करोंद बायपास, संजीव नगर के सामने, भोपाल (म.प्र.) अपना नाम महेश/महेश माहेश्वरी मिहोलिया (MAHESH MAHESHWARI MEHOLIYA) के स्थान पर भविष्य में मुझे केवल महेश माहेश्वरी (MAHESH MAHESHWARI) अनुसार संव्यवहार किया जावे.

पुराना नाम :

(महेश/महेश माहेश्वरी मिहोलिया)

(MAHESH)/(MAHESH MAHESHWARI MEHOLIYA)

(1044-बी.)

नया नाम :

(महेश माहेश्वरी)

(MAHESH MAHESHWARI)

नाम परिवर्तन

मैं, संजीव कुमार जैन सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ की मेरा नाम संजीव कुमार जैन है और वर्तमान में मुझे संजीव कुमार के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है और मैं संजीव कुमार जैन के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी एस.बी.आई.

लाइफ इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड की पॉलिसी क्र. 14035241304 में मेरा नाम संजय कुमार लिखा गया है जो कि गलत है अतः मेरी एस.बी.आई. लाइफ इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड की पॉलिसी क्र. 14035241304 में मेरा नाम संजय कुमार के स्थान पर संजीव कुमार जैन लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(संजय कुमार)

नया नाम :
(संजीव कुमार जैन)
पता- सदर बाजार मौहल्ला, करहिया,
जिला-ग्वालियर.

(1046-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा का नाम शादी के पूर्व कु. निहाल दीक्षित पुत्री श्री विनय कुमार दीक्षित था मेरा विवाह दिनांक 30-01-2015 को भिण्ड में श्री योगेश तिवारी आत्मज श्री शिवस्वरूप तिवारी के साथ संपन्न हो गया. अब मेरा नाम श्रीमती नेहा तिवारी पत्नी श्री योगेश तिवारी के नाम से जाना जावे है, मेरा नाम समस्त शासकीय कार्यालय, अशासकीय कार्यालय में व अन्य स्थानों पर निहाल दीक्षित पुत्री श्री विनय कुमार दीक्षित के स्थान पर श्रीमती नेहा तिवारी पत्नी श्री योगेश तिवारी, निवासी-डी-143, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, गोविन्दपुरा भोपाल किया जाये जो कि सत्य एवं सही है.

लॉयन महेश कुमार साहू,

(नोटरी एडवोकेट)

साहू लॉ चेंबर रियल स्टेट कंसलटेंट.

कार्यालय: 231, लाहोटी चेंबर, भूतल जोन-1,
एम.पी. नगर. भोपाल.

(1047-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है की प्रार्थी फर्म मैसर्स श्री विशुद्ध विहार एसोसिएट फेज II, सागर मध्यप्रदेश साझेदारी फर्म में संशोधन फलस्वरूप दो पार्टनर्स मनीषा जैन, अरविन्द जैन दिनांक 20 फरवरी, 2019 को फर्म से अलग हो गए हैं, भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में फर्म से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा. उपरोक्त संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य हैं.

साथ ही दो अन्य पार्टनर सुविधा सिंघई एवं रिचा जैन दिनांक 20 फरवरी, 2019 को फर्म में सम्मिलित किया जा रहा है तथा यह संशोधन फर्म के सभी साझेदारों को मान्य है.

मेसर्स श्री विशुद्ध विहार एसोसिएट फेज-2,

कन्छेदी लाल जैन, सुरेन्द्र कुमार जैन, पियूष जैन, तृप्ति जैन,
सत्येन्द्र जैन, रिचा जैन, सजुग जैन, सफल जैन, सुरेन्द्र कुमार जैन,
शीला जैन, सन्तोष कुमार जैन, गुणमाला जैन, संदीप कुमार जैन,
सिल्की सेठ, सुविधा सिंघई, रिचा जैन.

(पार्टनर)

Registered Address:- 1/108, Old Galla Mandi Road,

Katra Bazar, Sagar (M.P.) 470002.

(1034-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ए.जे. एव इंटरप्राइजेस जिसका पंजीयक क्रमांक 01/03/01/0408/19 मकान न.18 इंडस्ट्रियल एरिया पिपाल खिरिया, रायसेन म.प्र. के भागीदारी विलेख आपसी सहमती से परिवर्तन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है. श्री जोय थॉमस श्री एम.एस. थॉमस निवासी मकान पता-1078/19 05 न. बस स्टाफ, शिवाजी नगर, भोपाल को दिनांक 01/03/2019 से फर्म से आपसी सहमति से निर्वत किया जाता है एवं श्री अमित चौहान आत्मज श्री हल्के सिंह चौहान पता- एच-20, एस. आरजी. केम्पस, बी.टी.ए. रोड अवधपुरी भोपाल 01/03/2019 आपसी सहमती से नये भागीदार बनाये जाते हैं. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित नया एवं निर्वत भागीदार फर्म से सम्बंधित कोई लेन-देन बाद विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समय अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति मेरे फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

प्रोमोद कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता).

पता-194, जोन-2, एम.पी. नगर,

भोपाल (म.प्र.).

(1036-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the firm "M/s SHREE ARIHANT INDUSTRIES" Registered Office at 168-169, Sector-E, Sanwer Road, Indore Which was constituted vide partnership deed executed on 21st January, 2006 and the initial partners were Shri Akshay Surana S/o Shri Mangilal Surana, Shri Monu Jain S/o. Shri Babulal Jain, Shri Sonu Jain S/o. Shri Babulal Jain and Shri Parasmal Jain S/o Shri Jumaklal Jain.

In this Firm Subsequently following changes have occurred on 22nd May, 2012. Shri Monu Jain S/o Shri Babulal Jain and Shri Parasmal Jain S/o Shri Jumaklal Jain retired from the firm. Thus Shri Akshay Surana and Shri Sonu Jain were the two partners in the Firm.

Further on 1st April, 2018 Shri Abhay Surana S/o Shri Mangilal Surana Joined the firm as Partner and Shri Sonu Jain S/o Shri Babulal Jain voluntarily retired from the firm.

Now Akshay Surana and Abhay Surana are the running partners in the firm.

For-M/s Shree Arihant Industries,

AKSHAY SURANA,

(Partner).

(1037-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स धनलक्ष्मी इनफ्राटेक पता- 50, अनुप नगर, इन्दौर साझेदारी फर्म से श्री अरविन्द जैन पिता स्व. श्री वी.सी. जैन ने दिनांक 15-03-2018 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है. अब फर्म में श्री किरण देशमुख पिता श्री स्व. ध्यानदेव देशमुख ओर श्री फिरोज बंगलोवाला पिता श्री अकबर अली बंगलावाला, श्री उज्ज्वल भोरकर पिता श्री स्व. वाय. वी. भोरकर, श्री अतुल कुलकर्णी पिता श्री स्व. के.आर. कुलकर्णी एवं इसके अलावा दो नये साझेदार सम्मिलित हुये हैं जो कि श्री सौमिल संघवी पिता श्री मुकेश संघवी, मनीष अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल साझेदार हैं. एतदनुसार सूचित हों.

मेसर्स धनलक्ष्मी इनफ्राटेक,

अतुल कुलकर्णी,

(भागीदार).

पता- 50, अनुप नगर, इन्दौर.

(1043-बी.)

आम सूचना

मैं, प्रेम सिंह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी सर्विस बुक बी. एस. एन. एल. (विभाग) में उत्तराधिकारी के रूप में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती कमलाबाई लिखा गया है. जबकि मेरी पत्नी श्रीमती कमलाबाई कि मृत्यु दिनांक 01-10-1990 को हो जाने के कारण मैंने अपनी दूसरी शादी दिनांक 05-07-1991 में कोर्ट मेरिज के द्वारा पत्नी श्रीमती मायाबाई के साथ कर ली थी जो कि वह वर्तमान में मेरी वैधानिक पत्नी के रूप में मेरे साथ निवासरत् है. मैं, अपनी सर्विस बुक बी. एस. एन. एल. (विभाग) में पूर्व पत्नी श्रीमती कमला बाई के नाम के स्थान पर अपनी वर्तमान पत्नी श्रीमती माया बाई का नाम सर्विस बुक में उत्तराधिकारी के रूप में अंकित करा रहा हूँ सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

प्रेमसिंह,

क्रेशर कॉलोनी, घोसीपुरा,

ग्वालियर (म.प्र.).

(1045-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खंडवा

प्र.क्र. 1/बी-113(1)/2018-19.

दिनांक 04 जनवरी, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1), के अन्तर्गत]

आवेदक श्री मिश्रीलाल पिता शोभाराम सामेडिया, निवासी ग्राम मोरटक्का माफी तह. पुनासा, जिला खंडवा द्वारा “रेवा गुर्जर समाज, मागलिक भवन न्यास ग्राम मोरटक्का माफी” तह. पुनासा जिला खंडवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 18 जनवरी, 2019 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम व पता : “रेवा गुर्जर समाज, मागलिक भवन न्यास ग्राम मोरटक्का माफी.”
तह. पुनासा, जिला खंडवा.

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति : 1. 501/- नगद.

अनुसूची “ब”

अचल संपत्ति : 1. ग्राम मोरटक्का स्थित भूमि ख.न. 444/1 रकबा 0.25 है.
ख.न. 444/2 रकबा 0.2000 है. भूमि.

(166)

प्र.क्र. /बी-113(1)/2018-19.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1), के अन्तर्गत]

आवेदक श्री लखन राठौर पिता लक्ष्मण राठौर जाति तेली निवासी ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा द्वारा “राठौर समाज, न्यास ग्राम सुलगांव” तह. पुनासा जिला खंडवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 22 फरवरी, 2019 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम व पता : “राठौर समाज, न्यास ग्राम सुलगांव”. तह. पुनासा जिला खंडवा.

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति : 1. 10,000/- नगद.

अनुसूची “ब”

अचल संपत्ति : 1. निरंक.

(167)

ममता खेडे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्सी क्षेत्र, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदकगण ट्रस्टी श्री पुनित पिता श्री रमेश माधवानी पता-20, सम्मत बिहार, भिचौली मर्दाना, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा "इन्दौर इन्डुमिनिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट" कार्यालय पता-20, सम्मत बिहार, भिचौली मर्दाना, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | " इन्दौर इन्डुमिनिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट " |
| 2. पता | : | कार्यालय पता-20, सम्मत बिहार, भिचौली मर्दाना, इन्दौर म.प्र. |
| 3. चल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (अक्षर में रुपये ग्यारह हजार) मात्र है। |
| 4. अचल संपत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 27 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(169)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2018-19.

जारी दिनांक 22 फरवरी, 2019

(नियम पॉच-1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री सकलपंच दशा खडायता समाज बुरहानपुर ग्राम एमागिर्द, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री दिपेश पिता धनसुखलाल, निवासी इंदिरा कॉलोनी, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये।

उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. वर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव, | - | अध्यक्ष श्री सकलपंच दशा खडायता समाज, बुरहानपुर,
निवासी नागझिरी जिला बुरहानपुर. |
| 2. चल संपत्ति | - | 69094/- |
| 3. अचल संपत्ति | - | श्री सकलपंच दशा खडायता समाज, बुरहानपुर ग्राम एमागिर्द आबादी
सर्वे नम्बर 158 क्षेत्रफल 0.07 पैकि. |

प्रगति वर्मा,
पंजीयक.

(168)

वनसंबन्धी घोष-विक्रय

इमारती, जलाऊ लकड़ी, परिवहन समूहों हेतु

निविदा/नीलाम की सूचना बैतूल वन वृत्त बैतूल (मध्यप्रदेश)

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न समूहों से संबंधित काष्ठागारों में इमारती, जलाऊ लकड़ी के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदायें, निर्धारित प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपराह्न 02: 00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 03: 00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष काष्ठागार, बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी.

प्रथम दौर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा उपरांत दिनांक/दिन
05/03/2019 मंगलवार	12/03/2019 मंगलवार	18/03/2019 सोमवार	18/03/2019 सोमवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 18 मार्च, 2019 दिन सोमवार को अपराह्न 04:30 बजे से किया जावेगा. जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपाजिट एट काल के रूप में लिये जायेंगे.

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्त एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेंगी.

पी. एस. चंपावत,
मुख्य वनसंरक्षक,
वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन)
वनमण्डल, बैतूल.

(170)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2019-फाल्गुन 24 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा. राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील कराहल (शयोपुर), बण्डा, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़ (सागर), दमोह (दमोह), हनुमना (रीवा), तराना (उज्जैन), बड़ोद, नलखेड़ा (आगर), मोमन-बड़ोदिया, शाजापुर (शाजापुर), सोनकच्छ, देवास, बागली (देवास), सरदारपुर, धार (धार), इन्दौर, गौतमपुरा (इन्दौर), हुजूर, सीहोर, आष्टा, श्यामपुर (सीहोर), रायसेन (रायसेन), परासिया, जुन्नारदेव, बिछुआ, उमरैठ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील रहेली (सागर), घटिया (उज्जैन), सांवेर (इन्दौर), इच्छावर (सीहोर), मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), विरसा, बालाघाट में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी:- जिला मुरैना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, रतलाम, शाजापुर में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति :-

5. फसल कटाई :- जिला दतिया, अशोकनगर, सतना, रीवा, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इन्दौर, खरगौन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, जबलपुर व छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

6. सिंचाई :-जिला छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मन्दसौर, खरगौन, विदिशा, भोपाल व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति:-राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा :- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त-फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . 6.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. फसल कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, अधिक. मूँग व मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उडुद कम.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछौर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) उडुद, सोयाबीन अधिक. मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) उडुद, मूँग, सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) . .		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
5. बिजावर	..				
6. बड़ा मलहरा	..				
7. लवकुशनगर	..				
8. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
6. देवेन्द्रनगर	. .				
7. अमानगंज	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. रैपुरा	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	1.0				
4. सागर	. .				
5. रेहली	20.0				
6. देवरी	6.0				
7. गढ़ाकोटा	9.6				
8. राहतगढ़	8.0				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
12. जैसीनगर	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		धान, मक्का, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) मूँग, तुअर, मक्का, तिल,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		ज्वार अधिक. धान, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		सोयाबीन, कोदों-कुटकी कम.		
4. नागौद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्याँथर	. .		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	8.2				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जयसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) उड़द, तिल, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक. सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .				
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .				
2. पाली	. .				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है. सोयाबीन की कटाई कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	. .				
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर+दलोदा	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) मूँगफली अधिक. तुअर, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 जुताई चालू है. बोनी चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1)सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	15.0				
4. घटिया	22.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	2.2		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	10.4		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	11.0		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, अधिक. ज्वार, सोयाबीन, कपास, तिल, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. देवास	5.0				
4. बागली	12.0				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. रामा	..				
5. झाबुआ	..				
6. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..		सोयाबीन कम.		
4. सोंडवा	..		(2) ..		
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	12.0		कपास, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	10.5		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	24.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	3.6				
4. गौतमपुरा	10.0				
5. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		कपास, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		ज्वार कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33.*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				
10. चाचरियी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गन्ना, सोयाबीन अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) सभी फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36.*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	12.9		ज्वार, मक्का, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	10.0		4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, मूँग, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. इच्छावर	24.0				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	4.0				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, तुअर, मक्का, मूँगफली, ज्वार अधिक. मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सोयाबीन, उड़द, गन्ना कम.		
3. बेगमगंज	1.0		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41.*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42.*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43.*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द अधिक. तुअर, सोयाबीन, मूँग कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) मक्का समान. शेष फसलें अधिक हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) मक्का, तिल, तुअर समान. धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तिल, तुअर सुधरी हुई. धान, मक्का समान.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कट)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुटकी, तुअर, उडुद समान. (2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	..				
2. नैनपुर	..				
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान अधिक. मुँगाफली समान. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. तामिया	..				
3. परासिया	6.1				
4. जुन्नारदेव	17.4				
5. सांसर	..				
6. बिछुआ	3.2				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	7.8				
10. मोहखेड	20.0				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांढुर्णा	..				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. केवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान समान. (2) धान समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्सा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	26.0				
11. खैरलाँजी	..				

*जिला:- जिला झाबुआ, बड़वानी, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, डिण्डोरी व सिवनी से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.